

No. IITH/40/R/2023/RTI/MS, dt.11.07.2023

Furnishing of Information under RTI Act.

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Application No. & Date | : | IITHY/R/E/23/00071, dated.01.07.2023 |
| 2 | Name of the Applicant | : | |
| 3 | Date of Receipt of Application | : | 01.07.2023 |

4	Information Sought	Information given and details of documents, if any, furnished.
	<p>I am send a single question pdf Please provide a authentic answer this question Please find the PDF attached,</p> <p>The correct statement regarding WiFi and Wi-Max technology is/are –</p> <p>(I) WiFi uses radio waves to create wireless connection, WiMax uses spectrum to deliver connection.</p> <p>(II) WiFi is defined under IEEE 802.11x standards, while WiMax is defined under IEEE 803.16y standards</p> <p>(III) WiMax covers comparatively larger area than WiFi.</p> <p>(A) Only (II) (B) Only (I) and (II)</p> <p>(C) Only (I) and (III) (D) (I), (II) and (III)</p> <p>Wifi और Wi-Max तकनीक के संबंध में सही कथन है/हैं –</p> <p>(I) वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए WiFi रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, WiMax कनेक्शन देने के लिए स्पैक्ट्रम का उपयोग करता है।</p> <p>(II) WiFi को IEEE 802.11x मानकों के तहत परिभाषित किया गया है, जबकि WiMax को IEEE 803.16y मानकों के तहत परिभाषित किया गया है।</p> <p>(III) WiMax, WiFi की तुलना में तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्र को कवर करता है।</p> <p>(A) केवल (II) (B) केवल (I) और (II)</p> <p>(C) केवल (I) और (III) (D) (I), (II) और (III)</p>	<p>It is to inform you that, no question and answer covered under RTI Act-2005, The Central Information Commission in the case of Shri. Saidur Rehman V/s CIC (appeal Nos. CIC/AA/A/2006/00032 & 0034 DT.22 June 2007) has given decision that the RTI is not about seeking answers and asking questions. The Supreme Court in the matters of Central Board of Secondary Education & Anr V/s Aditya Bandopadhyay & Ors has elaborated the same. (Civil Appeal No. 6454 of 2011).</p>

If you are not satisfied with the information provided, you may file an appeal with the following authority within 30 days:

The Appeal, if any, should be addressed to:

Shri V. Venkat Rao
Registrar & First Appellate Authority,
IIT Hyderabad, Kandi, Sangareddy-502284
E-mail: registrar@iith.ac.in ; Tele: 040 2301 6055

Sd/-

(एम बद्दीनाथ)

(M Badrinath)

Joint Registrar & CPIO

Email: jr.cpio@iith.ac.in

Tele: 040 2301 6058

To,